

**प्रेस नोट दिनांक 30-12-2022 जनपद सिद्धार्थनगर**

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन्स में साप्ताहिक परेड की सलामी ली गयी एवं परेड का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये ।

आज दिनांक 30-12-2022 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनंद द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी तथा परेड का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रूप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरूपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई । पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश कक्ष में सभी गार्ड रजिस्ट्रों को चेक करते हुए गार्ड की सुरक्षा के संबंध में सभी गार्ड कमांडरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर शुक्रवार की परेड करायी गयी । शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवायी गयी एवं अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया । परेड के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन अखिलेश वर्मा, प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

**प्रेस नोट दिनांक 30.12.2022 जनपद सिद्धार्थनगर**

**सिद्धार्थनगर यूपी-112 पुलिस द्वारा स्टाल लगाकर प्रचार-प्रसार कर जनता में जागरूकता अभियान चलाया गया**

श्रीमान् पुलिस उपमहानिदेशक यू0पी0-112 मुख्यालय लखनऊ के आदेश के क्रम में अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में, सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात व निरीक्षक मो0 यासीन खाँ, प्रभारी-112 के नेतृत्व में आज दिनांक 30.12.2022 को नव वर्ष के आगमन के अवसर पर यू0पी0-112 के प्रचार-प्रसार हेतु जनपद के थाना बांसी के कस्बा माधव तिराहा व कोतवाली सिद्धार्थनगर में रेलवे स्टेशन के सामने तीन दिवसीय प्रचार-प्रसार के लिए स्टाल व सेल्फी प्वाइन्ट लगाया गया । आम जनमानस को यू0पी0-112 आपातकालीन सेवाओं व महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की जानकारी देने हेतु पुलिसकर्मियों की ड्युटी लगायी गयी है । कस्बा बांसी के माधव तिराहे के स्टाल का शुभारम्भ क्षेत्राधिकारी बांसी व थाना सिद्धार्थनगर के रेलवे स्टेशन के स्टाल का शुभारम्भ क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा किया गया । इस अवसर पर स्कूली बच्चे व सम्भ्रान्त नागरिक, पत्रकार बन्धु आदि मौजूद रहें ।

**प्रेस नोट दिनांक 30-12-2022 थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर**

महिला सशक्तिकरण/मिशन शक्ति/एंटीरोमियो चेकिंग अभियान के तहत थाना डुमरियागंज के महिला बीट पुलिस अधिकारी द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को किया गया जागरूक ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता/ मिशन शक्ति अभियान" के आदेश के क्रम में व सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के निर्देशन में आज दिनांक 30.12.2022 को देवनंदन उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज के नेतृत्व में मु0 आ0 राजेश यादव तथा महिला बीट पुलिस अधिकारी महिला मु0 आ0 संगीता मौर्या, म0 आरक्षी संगीता द्वारा थाना क्षेत्र के कस्बा डुमरियागंज में शिक्षा एवं सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया तथा महिलाओं, बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के प्रति तथा महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड लाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी गई । इसके साथ-साथ छात्राओं को निर्भीक होकर शिक्षित एवं सक्षम बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया ।

**प्रेस नोट दिनांक 30-12-2022 जनपद सिद्धार्थनगर**

**ऑपरेशन प्रहार के तहत 02 अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत आज दिनांक 30-12-2022 को चोरी व लूट के अपराधों आदि में संलिप्त 02 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद के थाना मोहाना पर धारा (3)3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की कार्यवाही की गयी ।

**निम्नलिखित अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी-**

01-अनिल शुक्ला उर्फ सुमित शुक्ला पुत्र चद्रकांत शुक्ला ग्राम बूड़ा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

02- मोनू उर्फ दुर्गेश शुक्ला पुत्र शिवाकांत शुक्ला ग्राम बूड़ा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

**प्रेस नोट दिनांक 30-12-2022 जनपद सिद्धार्थनगर**

**महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 30-12-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 04 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 01 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 03 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है , 01 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान, म0हे0मु0 सबिता सिंह, म0 आ0प्रियम्बदा सिंह , म0 आ0 नेहा सिंह व म0 आ0 अनिशा सरोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

**निस्तारित पत्रावली का विवरण-**

01. साहिबा पत्नी इरशाद साकिन ढोरउरा ,थाना को0 बांसी ,जनपद सिद्धार्थनगर ।

**प्रेस नोट- थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 30.12.2022**

**थाना पथरा बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया**

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में में राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में राजेश कुमार तिवारी, प्रभारी निरीक्षक थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पथरा बाजार पुलिस द्वारा आज दिनांक.30.12.2022 को वाद स0 1142/20 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)द 3(2) (va) sc /st एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01.बिगाडू उर्फ गिरजेश मौर्या मे पुत्र मुरली मौर्या साकिन अमौना तिवारी थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01. उ0नि0 रबिन्द्र प्रसाद निषाद थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.आरक्षी निशांत कुमार थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

03. आरक्षी बृजेश यादव थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

**प्रेस नोट- थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक.30.12.2022**

**थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा 5,000/-रु0 इनामिया 01 नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।**

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के निर्देशन में देवनन्दन उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 30.12.2022 को डुमरियागंज पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 308/2022 धारा 147,148,307,504,336 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित 5,000/-रु0 इनामिया 01 नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-**

1.अफसाना खातून पत्नी मो० रसीद ग्राम तेलिआडीह (कर्बलाडीह), थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

- 01- प्रभारी निरीक्षक देव नन्दन उपाध्याय थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. उ०नि० रणजय सिंह थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. महिला का० उर्मिला देवी थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
04. आरक्षी अरुण कुमार थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
05. आरक्षी धर्मनाथ यादव थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

**प्रेस नोट दिनांक 30.12.2022 जनपद-सिद्धार्थनगर**

पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा नव वर्ष के दृष्टिगत कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना सिद्धार्थनगर क्षेत्रान्तर्गत कस्बा सिद्धार्थनगर में किया गया पैदल गस्त/ भ्रमण, आमजन से संवाद स्थापित कर लोगों से आपस में सौहार्द बनाये रखने की अपील किया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा नव वर्ष के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाये रखने, आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास एवं सुरक्षा के भाव को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज दिनांक 30.12.2022 को थाना सिद्धार्थनगर के कस्बा सिद्धार्थनगर में पैदल गस्त/भ्रमण किया गया । पैदल गस्त के दौरान दुकानदारों, व्यापारी बन्धुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से मुलाकात कर वार्ता की गयी । आमजन को आपस में प्रेम, सौहार्द बनाए रखने हेतु जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस प्रशासन के सहयोग की भी अपील की गयी । पैदल गस्त के दौरान अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर, गर्वित सिंह क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु, प्रभारी निरीक्षक थाना सिद्धार्थनगर सहित अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

**प्रेस नोट दिनांक 30-12-2022 जनपद सिद्धार्थनगर ।**

**‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत थाना डुमरियागंज पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 93 वाहनों की नीलामी कराकर मय GST कुल 1244900/-रु0 के राजस्व की प्राप्ति ।**

**सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अब तक कुल 253 वाहनों की नीलामी कर 28,46,402/-रु0 राजस्व प्राप्त किया गया**

प्रायः थाना परिसर व परिसर के बाहर बेतरतीब तथा बेहिसाब संख्या में दो पहिया व चार पहिया वाहन खड़े रहते हैं। इन वाहनों से थाने की काफी अधिक भूमि व्यर्थ हो जाती है व दैनिक थाना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिले के सभी थानों के भ्रमण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में लम्बे समय से काफी संख्या में लावारिस, मालमुकदमाती व एम0वी0 एक्ट में सीजशुदा वाहन खड़े हैं। जो धूप, गर्मी, बरसात की वजह से जंग लगकर धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। जिस कारण से न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो रही है। वाहनों के क्षरण के कारण थाना परिसर में रहने व आने-जाने वालो व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना बनी रहती है। थाना परिसर में लम्बे समय से खड़े वाहनों के सम्बन्ध में समय-समय पर न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) सं0 2745/2002 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में थाने में खड़े वाहनों के निस्तारण हेतु अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में थाने पर खड़े माल मुकदमाती व अन्य वाहनों के निस्तारण हेतु जनपद सिद्धार्थनगर में ‘आपरेशन क्लीन’ 14 जुलाई 2022 से प्रारम्भ किया गया। ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत सभी थानों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध लक्ष्य दिया गया। सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है।

आज दिनांक 30.12.2022 को कुणाल, उप जिलाधिकारी(न्यायिक) सिद्धार्थनगर, राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज, बृजेश कुमार, आर0आई0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सिद्धार्थनगर की गठित कमेटी द्वारा थाना डुमरियागंज में लम्बित मालमुकदमाती व एम0वी0 एक्ट, आरटीओ से सम्बन्धित सीज शुदा कुल 93 वाहनों जिसमें 62 दोपहिया वाहन (लावारिस-15, माल मुकदमाती-47), 08 अदद चार पहिया वाहन (माल मुकदमाती-07 एमवीएक्ट-01), तीनपहिया (टेम्पू) (एमवीएक्ट-11), 12 साइकिल मालमुकदमाती की नीलामी थाना डुमरियागंज परिसर में विधि सम्मत तरीके से करायी गयी। जिससे कुल नीलामी की धनराशि मय GST कुल 12,44,900/-रु0 का राजस्व प्राप्त हुआ। जिसको राजकीय कोषागार में जमा कराया जायेगा। नीलामी में कुल 158 लोगो नें बोली लगाया।

पूर्व में थाना इटवा से 02 वाहन, मिश्रौलिया से 04 वाहन, जोगिया उदयपुर से 09 वाहन, शोहरतगढ़ से 98 वाहन चिल्हिया से 45 वाहन, शिवनगर डिडई से 02 वाहनों की नीलामी करायी जा चुकी है। अब तक कुल 253 वाहनों की नीलामी से कुल 28,46,402/-रु0 राजस्व की प्राप्ति हुई है।

प्रेस नोट- दिनांक 30-12-2022 थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

थाना शिवनगर डिडई पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट के आरोपी 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बांसी के निर्देशन में राजेश कुमार शुक्ला, थानाध्यक्ष थाना शिवनगर डिडई के नेतृत्व में थाना शिवनगर डिडई पुलिस द्वारा आज दिनांक 30-12-2022 मु0अ0स0 102/22 धारा 354 (क),506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बंधित 01 नफर अभियुक्त सफीक उल्ला पुत्र अत्ताउल्लाह ग्राम करमाहिया थाना शिव नगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01-सफीक उल्ला पुत्र अत्ताउल्लाह ग्राम करमाहिया थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01.उ0नि0 रमेश कुमार साहनी थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.उ0नि0 सुरेंद्र प्रताप सिंह थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

03. आरक्षी प्रमोद कुमार थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

**आवश्यक सूचना**

समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष  
जनपद सिद्धार्थनगर ।

आप सभी लोग नव वर्ष के दृष्टिगत शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की चेकिंग ब्रीथ एनलाइजर के साथ करते हुए फोटो इस ग्रुप/मीडिया सेल को भेजना सुनिश्चित करें ।

आदेशानुसार  
पुलिस अधीक्षक महोदय  
सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट- दिनांक 30-12-2022 जनपद सिद्धार्थनगर ।

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा नव वर्ष के दृष्टिगत शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 30-12-2022 को जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा नव वर्ष के दृष्टिगत शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया । अभियान के दौरान जनपदीय पुलिस द्वारा ब्रीथ एनलाइजर से वाहन चालकों की जांच एवं कार्यवाही की गयी । नव वर्ष के दृष्टिगत सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा निरंतर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है ।

अभियान चलाकर भारी संख्या में पुलिस बल की टीमों गठित करें, जिनके पास शराब पीने वालों की चेकिंग हेतु ब्रीद एनलाइजर व अन्य जरूरी उपकरण भी हों और सादी वर्दी में पुलिस एवं इंटेलिजेंस की टीमों को भी लगाया जाये जिनका कार्य सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, रास्तों, पार्कों, चौराहों, होटलों, सिनेमा हाल एवं मॉल, मोहल्ले के नुक्कड़ों, रेलवे एवं बस स्टेशनों आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर सतर्क दृष्टि रखकर शराब पीकर हुड़दंग एवं उदण्डता, वाहन चलाने, बाईक स्टंट बाजी करने, फब्तियां कसने, छेड़खानी करने, झगड़ा- लड़ाई करने वाले आदि व अन्य असमाजिक व अराजक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए सख्त से सख्त कार्यवाही करना होगा। किसी भी दशा में कोई भी अप्रिय घटना घटित न होने पाए । साथ ही यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें कि नए साल के सेलिब्रेशन पर आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न हो एवं कानून एवं शांत व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे